

12

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष :- 05732 - 233879

फैक्स :- 05732 - 233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर -203001

सन्दर्भ : 171/OG-247/2023

दिनांक : 01-06-2023

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub:- Regarding compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal under O.A. No. 265/2023 Pappu Singh V/s State of Uttar Pradesh

Sir,

With reference to the above order passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 12-04-2023 under O.A. No. 265/2023 Pappu Singh V/s State of Uttar Pradesh. A Joint committee of District Panchayati Raj Officer, Executive Engineer, Ganga Canal, Executive Officer and Nagar Palika Parishad, Bulandshahr has been formed to visit and inspect the site to obtain a report and take necessary action on the facts given in the complaint. The detailed report of the joint committee is being forwarded for your kind perusal and further processing please.

Encl:-As aboves

Sapna
1-6-23
(Sapna Srivastava)

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Bulandshahar

**Action Taken Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's
order dated 12-04-2023 in O.A.No. 265/2023
(Pappu Singh V/s State of Uttar Pradesh)**

Hon'ble NGT has passed an order dated 12-04-2023 in O.A. No. 265/2023 Pappu Singh V/s State of Uttar Pradesh. The operative portion of the order is as under:-

".....2. In view of above, we direct a joint Committee of State PCB, Fatehpur Nagar Palika Parishad, Executive Engineer, Irrigation Department and District Magistrate, Bulandshahr verify facts and take remedial action following due process of law. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. Remedial action may include relocation of existing waste dumping site, utilizing the site for plantation and preventing encroachment.

3. An action taken report may be filed before this Tribunal by e-mail within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 04.07.2023.

A copy of this order along with the copy of complaint be forwarded to State PCB, District Magistrate, Bulandshahr and Executive Engineer, Irrigation Department by e-mail for compliance....."

Background:-

2. Hon'ble NGT passed order dated 12-04-2023 on the complaint of Mr. Pappu Singh that unscientific dumping of solid waste in Village Fatehpur, District Bulandshahr, U.P. on the bank of Upper Canal Division Escape, resulting in the pollution of the canal. The dumped solid waste is also causing air pollution and foul smell. Irrigation Department has not been able to prevent dumping of such waste. There are no adequate plantations on open land in the vicinity resulting in encroachment.

ActionTaken:-

3. In compliance of Hon'ble NGT order, a Joint Committee of the Officers from District Panchayati Raj Officer, Executive Engineer, Ganga Canal and Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bulandshahr has been constituted by the District Magistrate, Bulandshahr on 28-04-2023 for the inspection of the site at Village Panchayat Fatehpur Bujurg, Tehsil and District Bulandshahr to verify the facts of the complaint and to take remedial action for the existing solid waste dump on the bank of the canal and to take appropriate measures to prevent further dumping at the bank of the canal. A copy of the letter dated 28-04-2023 is annexed as **Annexure-I**.









4. The joint committee constituted by the District Magistrate, visited the site on 16/05/2023. Mr. Pappu Singh complainant was also present during the inspection. No foul odour was experienced during the inspection. It was found that no garbage was present at the site and plantation was done. The photograph of the joint committee site inspection is appended below.



5. In compliance of Hon'ble NGT order the action taken from different concerned departments are as below:

5.1. Action taken by Gram Panchayat Office, Fatehpur Bujurg.

- (a) The garbage lying in the open at the bank of upper Ganga canal was disposed off from the site by JCB & Tractor Trolley. The photograph of the JCB & Tractor Trolley is enclosed.



f. 3

BF

Deepak

Pappu

- (b) A new site has been selected for the proper disposal off dry solid waste generated from the households of the village. The photograph of the selected site with latitude & longitude are enclosed as below:



- (c) The Gram Panchayat has also issued notices to 24 households of Village Fatehpur Bujurg to the effect that disposal off garbage at the bank of canal is banned and if anyone violates this and throws garbage at the above site despite of the warning, a penalty of Rs. 5000/- will be imposed followed by prosecution.
- (d) Gram Panchayat, Fatehpur Bujurg has planted sapling of plants at the bank after disposal off the garbage to prevent future dumping.

The detailed report of DPRO is annexed as Annexure-II

5.2. Action taken by Executive Engineer, Ganga Canal, Bulandshahr.

- (a) They have disposed off the garbage lying on the bank of canal.
- (b) A notice board is also put at the bank of canal to declare the site as prohibited area for dumping of garbage.



The detailed report of Executive Engineer, Ganga Canal, Bulandshahr is annexed as Annexure-III

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.3. **Action taken by Executive Engineer, Nagar Palika Parishad, Bulandshahr.**

- (a) It has been informed by the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bulandshahr, through his letter dated 29/05/2023, that the Village Fatehpur Bujurg does not come under Nagar Palika Parishad, Bulandshahr. The copy of the letter is annexed as **Annexure-IV**



5.4. **Sample Water Analysis Report:** At the time of joint committee inspection, the water samples were collected on 16/05/2023 from up-stream and down-stream of Mr. Pappu Singh's (complainant) house from the canal to assess the impact of garbage dumping on the water quality of the canal. The samples were analyzed in NABL accredited laboratory of UPPCB, Bulandshahr. The analysis reports of the samples collected on 16/05/2023 is as below:

Sr. No.	Date of Collection of Samples	Sampling Place	Parameter	Results
1	16.05.2023	Upstream of the canal (Before Mr. Pappu Singh's House)	Color	15 (Hz)
			pH	7.21
			DO	7.9 mg/l
			BOD	2.5 mg/l
			COD	14.0 mg/l
2	16.05.2023	Downstream of the canal (After Mr. Pappu Singh's House)	Color	15(Hz)
			pH	7.23
			DO	7.8 mg/l
			BOD	2.6 mg/l
			COD	16.0 mg/l

It is observed that there is no significant change in the water quality of U/s and D/s of samples. The analysis reports of the samples collected on 16/05/2023 is enclosed as **Annexure-V**

6. It is also informed by the complainant, Mr. Pappu Singh, that he is satisfied with the remedial action taken by the administration and a letter in this regard has also been given by him. The copy of the said letter is annexed as **Annexure-VI**

The above action taken report is being submitted for perusal and necessary action.

			
(Manoj Rastogi) Executive Officer Nagar Palika Parishad Bulandshahr	(Binod Kumar Singh) Executive Engineer Bulandshahr Khand Ganga Canal Bulandshahr	(Sapna Srivastava) Regional Officer UP Pollution Control Board Bulandshahr	(Dr. Preetam Singh) District Panchayati Raj Officer Bulandshahr

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 21/N47/2023

दिनांक: 28-04-2023

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में श्री पप्पू सिंह एवं अन्य ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने निवास स्थान के सामने स्थित अपर केनाल नहर के डिवीजन स्केप, नहर की पटरी पर ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग के घरों के सामने अवैध कूड़ा घर बनाने, सफाई न होने, नहर में कूड़ा डालकर नहर के पानी को दूषित करने एवं उक्त से आस-पास का वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की शिकायत की गई है। तत्कम में ओ0ए0 नं0-265/2023 पप्पू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 12.04.2023 को संयुक्त समिति के माध्यम से शिकायत के संदर्भ में नियमानुसार उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेशों के अनुपालन में निम्न अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिला पंचायतीराज अधिकारी, बुलन्दशहर।
2. अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।

निर्देशित किया जाता है कि उक्त समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में नहर के किनारे एवं नहर में पड़े नगरीय ठोस अपशिष्ट को विस्थापित कराते हुये उक्त का निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में नगरीय ठोस अपशिष्ट की डम्पिंग नहर के किनारे कदापि न किया जाये एवं उक्त के बचाव हेतु पर्याप्त वृक्षारोपण एवं फेन्सिंग का कार्य सुनिश्चित कराया जाये। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि ससमय तथ्यात्मक आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके।

(वन्द प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

पृष्ठांकन सं0-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बुलन्दशहर।
4. उप जिलाधिकारी सदर, बुलन्दशहर।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करें।
6. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

दिनांक:-

27.4.23
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर।
पत्रांक 858 /शि0लि0/2023-24, दिनांक 20/05/2023
सेवा में

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,



विषय:- एन0जी0टी0 मुख्य बेन्च नई दिल्ली में दायर गूल प्रार्थना पत्र संख्या 265/2023, श्री पप्पू सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या का प्रेषण।

उपरोक्त वाद में एन0जी0टी0 की मुख्य बेन्च नई दिल्ली द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं। जिनकी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

1. ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग में अपर कैनल डिवीजन एस्कैप के किनारे खुले एरिया में कूड़ा जमा है उसको हटाया जाये।

आख्या:- ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग में अपर कैनल नहर की डिवीजन एस्कैप नहर की पटरी किनारे पर जो सूखा कूड़ा पड़ा हुआ था उसको जे0सी0वी0 मशीन व ट्रेक्टर ट्रॉली से हटवाकर साफाई करा दी गयी है।

सफाई कार्य के फोटोग्राफ संलग्न



- सूखा कूड़ा डालने हेतु गाँव में बगैरे के पुल के पास अस्थाई जगह का चयन करके गाँव का सूखा कूड़ा डाला जा रहा है।
- कूड़ा डालने हेतु चयनित भूमि की फोटोग्राफ संलग्न



- ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग के जो भी व्यक्ति नहर के किनारे कूड़ा डाल रहे थे, उन 24 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, यदि भविष्य में कोई ग्रामीण नहर के किनारे कूड़ा डालता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


कार्यालय ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड बुलन्दशहर।
 पत्रांक-01 / 2023-24 दिनांक 19.4.2023

नोटिस

श्री/श्रीमती सुन्दर सिंह 210 हरपक 168
 ग्राम पंचायत - फतेहपुर बुजुर्ग
 विकास खण्ड - बुलन्दशहर।

अवगत कथना है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग में कूड़ा करकट काली सड़क के किनारे फेंका जाता है जिससे ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग में काली सड़क पर काली सन्दगी रहती है। अनेकों बार मौखिक रूप से कहने के बाद भी आपकी द्वारा ग्राम पंचायत में काली सड़क/सड़के के किनारे कूड़ा फेंका जा रहा है। जिससे अनेकों तरह की बीमारियों के हान की सम्भावना है।


अतः आपको सचेत किया जाता है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग में काली सड़क के किनारे अपने घर/घर का कूड़ा करकट न फेंकें, अगर आप सड़क किनारे कूड़ा करकट फेंकते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके विरुद्ध पंचायत सार्व अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत 5000 रुपये का जुर्माना व अन्य विधिक कार्यवाही अगल में लायी जायेगी।


 साक्षि
 ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग
 विकास खण्ड-बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:-

- सहायक विकास अधिकारी(पो) महादय, विकास खण्ड बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सीकी इंचार्ज भाना सुजा देसाय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सुन्दर सिंह
 210 हरपक


 साक्षि
 ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग
 विकास खण्ड-बुलन्दशहर।

सुजा देसाय
 6

नोटिस प्रारि रजिस्टर की प्रति संलग्न



क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	एण
1	सुख सिंह	हरकण सिंह	अकूर
2	राजेश	सुखमोहन सिंह	अकूर
3	सुखदेव	राम लाल	अकूर
4	सुखदेव D/O	राजेश	अकूर
5	सोमनाथ सिंह	सोमनाथ सिंह	अकूर
6	पुष्प सिंह	पुष्प सिंह	अकूर
7	सुखदेव	सुखदेव	अकूर
8	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
9	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
10	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
11	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
12	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
13	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
14	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
15	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
16	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
17	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
18	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
19	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
20	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
21	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
22	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
23	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर
24	सोमनाथ	सोमनाथ	अकूर

2. अपर कैनल डिवीजन एस्कैप के किनारे खाली भूमि पर कोई पौधारोपण नहीं है इसलिए अतिक्रमन हो रहा है।

आख्या:- ग्राम पंचायत फतेहपुर बुजुर्ग द्वारा अपर कैनल डिवीजन एस्कैप के किनारे कूड़े के ढेरों को हटवाकर पौधारोपण करा दिया गया है।

पौधारोपण के फोटोग्राफ संलग्न





ग्राम पंचायत में अपर कैनल डिवीजन एस्कैप के किनारे कूड़े के ढेर हटाने, साफ-सफाई कराने तथा पौधारोपण कार्य से शिकायतकर्ता श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग निस्तारण से संतुष्ट हैं तथा उनके द्वारा लिखित में भी संतुष्टि पत्र दिया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Signature)

(डा०प्रीतम सिंह)

जिला पंचायत राज अधिकारी
बुलन्दशहर।

Annexure-III

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर
बुलन्दशहर

पत्रांक:- 1894- /बुखं0गं0न0नु0/ दिनांक:-25/09/2023


विषय:- श्री पप्पू सिंह व अन्य चामवारी फतेहपुर बुजुर्ग द्वारा डिविजन स्कैप की पटरी पर अवैध कूड़ा डाले जाने की शिकायत के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय आदेश संख्या 71/एन0जी0टी/2023।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री पप्पू सिंह व अन्य चामवारी फतेहपुर बुजुर्ग द्वारा डिविजन स्कैप की पटरी पर अवैध कूड़ा डाले जाने के सम्बन्ध में की गयी है। प्रसंगत स्थल पर डाले गये अवैध कूड़ा इत्यादि को सिंचाई विभाग द्वारा हटवा दिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न) तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय मुकदमा /कार्यवाही की गयी है एवं प्रसंगत स्थल पर "यहां कूड़ा डालना सख्त मना है" का बोर्ड लगा दिया गया है। फोटोग्राफ संलग्न है।

साथ ही शिकायत पर गठित जांच समिति के सदस्यों जिला पंचायत राज्य अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ताओं को भी मौके पर बुलाकर नहर की पटरी से हटाये गये समस्त कूड़ा-करकट इत्यादि से अवगत करा दिया गया है। सभी शिकायतकर्ता उपरोक्त की गयी कार्यवाही से सन्तुष्ट हैं। वर्तमान में किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मौके/स्थल के फोटो संलग्न कर आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधिशासी अभियन्ता
बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर
बुलन्दशहर

पत्रांक:- /बुखं0गं0न0नु0/ दिनांक:- / /2023

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर
बुलन्दशहर



2/11

2/11

138
1952



Call of Fold 36

COM
AE

JE

श्रेष्ठक. अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

स्थान में
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी,
बुलन्दशहर।

पत्रांक- 139 / सा0वि0 / 2023-24
महोदय,


दिनांक- 29-5-2023

वृष्या जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 71/एन0जी0टी0/2023 दिनांक 28.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में श्री पप्पू सिंह एवं अन्य ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने निवास के सामने स्थित अपर केनाल नहर के डिवीजन स्केप नहर की पटरी पर ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग के घरों के सामने अकैष कूड़ा घर बनाने, सफाई न होने, नहर में कूड़ा डालकर पानी को दूषित करने एवं उच्च के आस पास का वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग जनपद बुलन्दशहर का अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग बुलन्दशहर, डी0पी0आर0ओ0 बुलन्दशहर, सहायक अभियन्ता (निविदित) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, बुलन्दशहर के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के घर के सामने कूड़ा गन्दगी नहीं पायी गयी, साथ ही वर्णित गांव नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर की सीमान्तर्गत नहीं है।

अतः आस्था सादर प्रेषित है।

भवदीय



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0:- / सा0वि0 / 2023-24

तददिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 71/एन0जी0टी0/2023 दिनांक 28.04.2023 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी (सादर) महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

REGIONAL LABORATORY BULANDSHAHR, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
 Address - F-5, Yamunapuram, Behind MMR Mall, Bulandshahr, 203001
 Phone : 05732-233879



TEST REPORT : WATER LABORATORY (SURFACE WATER)

Code No. BSR.D.S./SW 002/23 TC-9613
 Dt./Period of testing 16.05.2023 - 20.05.23

Sr.No.
 Dt. Of compilation of test report 20.05.2023

1. Sample Source (River/ Lake/Pond/Drain/ S.T.P./ nny other specify) Gionga Canal
2. Sampling Point .. Upstream of the canal (Before Mr. Pappu Singh's House)
3. Type of Sample (Grab/Composite/Integrated) Grab
4. Sample Collected by Vishnu Doyal, Rahul (JRF)
5. Colour & Odour Colourless, Odourless
6. Quantity & packing (Plastic Jerican/Any Other) 1 Texcan, 1 D.O. Bottle
7. Date of Sample Collection 16.05.2023
8. Analysis indented by RD, U.P.P.C.B. Bulandshahr
9. Date of Sample Receipt in Laboratory 16.05.2023
10. Method of analysis APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023, IS 3025(Part-44) : For BOD
11. Method of Sampling APHA 24th Edition, 2023

Sr. No.	Name of Parameters	Test Method	Unit	Result	Detection Range
1.	pH (@25°C)	4500 H+ B Electrometric Method	-	<u>7.21</u>	02-12
2.	Colour	2120 B Visual Comparison Method	Hazen	<u>15</u>	5-1000 Hazen
3.	Total Suspended Solids	2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105°C	mg/l	/	10-20000 mg/l
4.	Total Dissolved Solids	2540 C Total Dissolved Solids dried at 180°C	mg/l	/	5-10000 mg/l
5.	Total Solids	2540 B Total Solids dried at 103-105°C	mg/l	/	5-15000 mg/l
6.	D.O.	4500-OB Iodometric Method	mg/l	<u>7.4</u>	10-1000 mg/l
7.	B.O.D.	3 days 27°C IS 3025 (Part 44) : 1993 Bio Chemical Oxygen Demand	mg/l	<u>2.5</u>	0.1-1000 mg/l
8.	C.O.D.	5220 B Open Reflux Method	mg/l	<u>14.0</u>	2.0-1000 mg/l
9.	Turbidity	2130 B Nephelometric Method	NTU	/	1-500 NTU
10.	Conductivity (@25°C)	2510 B Laboratory Method	µS/cm	/	10.0 -1000 µS/cm
11.	Total Hardness as CaCO ₃	2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l	/	10.0 -5000 mg/l
12.	Calcium	3500 -Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l	/	10.0 -1000 mg/l
13.	Magnesium	3500 -Mg B Calculation Method	mg/l	/	0.2- 14 me/l

Analysed by Nishu

Authorised Signatory/ Geetesh Chandra

Assistant Scientific Officer/ Quality Manager
GEETESH CHANDRA
 Quality Manager
 U.P. Pollution Control Board

Reviewed by Sapna

Regional Officer/Technical Manager
SAPNA SRIVASTAVA
 Technical Manager
 U.P. Pollution Control Board
 Bulandshahr

Note: 1. The result is valid only for the items tested. 2. The report shall not be reproduced except in full, without the permission of the Regional Laboratory, Bulandshahr.

.....End of Report.....



TEST REPORT : WATER LABORATORY (SURFACE WATER)

- Sr. No.
 Dt. Of compilation of test report 20.05.2023
 Code No. BR/05/50001/23 TEMS
 Dt./Period of testing 16.05.2023-20.05.23
- Sample Source (River/ Lake/Pond/Drain/ S.T.P./ any other specify) Ganga Canal
 - Sampling Point Downstream of the Canal (After Mr. Pappu Singh's house)
 - Type of Sample (Grab/Composite/Integrated) Grab
 - Sample Collected by Vishnu Dayal, Rahul (JRF)
 - Colour & Odour Colourless, Odourless
 - Quantity & packing (Plastic Jerican/Any Other) 1 Jerican, 1 DD bottle
 - Date of Sample Collection 16.05.2023
 - Analysis indented by RD U.P.P.C.B. Bulandshahr
 - Date of Sample Receipt in Laboratory 16.05.2023
 - Method of analysis APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023, IS 3025(Part-44) : For BOD
 - Method of Sampling APHA 24th Edition, 2023

Sr. No.	Name of Parameters	Test Method	Unit	Result	Detection Range
1.	pH (@25°C)	4500 H+ B Electrometric Method	-	<u>7.23</u>	02-12
2.	Colour	2120 B Visual Comparison Method	Hazen	<u>15</u>	5-1000 Hazen
3.	Total Suspended Solids	2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105°C	mg/l	/	10-20000 mg/l
4.	Total Dissolved Solids	2540 C Total Dissolved Solids dried at 180°C	mg/l	/	5-10000 mg/l
5.	Total Solids	2540 B Total Solids dried at 103-105°C	mg/l	/	5-15000 mg/l
6.	D.O.	4500-OB Iodometric Method	mg/l	<u>7.8</u>	10-1000 mg/l
7.	B.O.D.	3 days 27°C IS 3025 (Part 44) : 1993 Bio Chemical Oxygen Demand	mg/l	<u>2.6</u>	0.1-1000 mg/l
8.	C.O.D.	5220 B Open Reflux Method	mg/l	<u>16.0</u>	2.0-1000 mg/l
9.	Turbidity	2130 B Nephelometric Method	NTU	/	1-500 NTU
10.	Conductivity (@25°C)	2510 B Laboratory Method	µS/cm	/	10.0 -1000 µS/cm
11.	Total Hardness as CaCO ₃	2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l	/	10.0 -5000 mg/l
12.	Calcium	3500 -Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l	/	10.0 -1000 mg/l
13.	Magnesium	3500 -Mg B Calculation Method	mg/l	/	0.2- 14 mg/l

Analysed by Mick

Authorised Signatory/ Geetesh Chandra

Assistant Scientific Officer/ Quality Manager
GEETESH CHANDRA
 Quality Manager

Reviewed by Sapna
 Regional Officer/Technical Manager

Note : 1. The result in the test report is valid only for the sample received in lab. The test report pertains to the sample as received in lab.
 U.P. Pollution Control Board
 Bulandshahr

SAPNA SRIVASTAVA
 Technical Manager
 U P Pollution Control Board
 Bulandshahr

.....End of Report.....

Designated Best Use Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH betwn 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

जोना

जिला पंचायत (उत्तर अंचल) कुलकर्णी

महोदय

श्री द्वारा मजा में शिकायत के सम्बन्ध में

जो कुछ भी बाल के खाने पर हुआ या शिवाई विभाग
की बहाल पर, इसके आगे प्रचार की व आगे पंचायत
द्वारा जल ब मशीन के कुंवाकर खलाई करवा दी गई
है जिससे मैं खुश हूँ।

आपके अनुरोध धंकि आगे है

पक्ष गहर की पट्टी पर कुछ ना डालने देव की व्यवस्था
कर आपकी शक्ति रूप होगी

धन्य

पप्पु सिंह S/O श्री/कुलकर्णी

ग्राम जलेशपुरा

Mo - 8920514929